



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1946 (श10)

(सं० पटना 891) पटना, बुधवार, 4 सितम्बर 2024

सं० 3ए-2-वे०पु०-09/2016/9614—वि०
वित्त विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव ।

सेवा में,

वरीय लेखा अधिकारी,
प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय,
महालेखाकार भवन,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना-800001

पटना, दिनांक 4 सितम्बर 2024

विषय :- वित्त विभागीय संकल्प सं०-7831, दिनांक-22.07.2024 के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

उपर्युक्त वित्त विभागीय संकल्प द्वारा दिनांक-11/04/2023 के उपरान्त 30 जून/31 दिसम्बर को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की गणना हेतु वैचारिक वेतनवृद्धि अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है।

2. विभिन्न विभागों/हितधारकों द्वारा वैचारिक वेतनवृद्धि हेतु अर्हक सेवा अवधि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है।

3. उपर्युक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक-11/04/2023 के उपरान्त 30 जून/31 दिसम्बर को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले वैसे सरकारी सेवक, जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि की देय तिथि क्रमशः 01 जुलाई एवं 01 जनवरी है और सेवानिवृत्ति की तिथि को वेतनवृद्धि हेतु एक वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते हैं, तो उन्हें ही मात्र पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु एक वैचारिक (Notional) वेतन-वृद्धि अनुमान्य होगा।

विश्वासभाजन,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 891-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>